

Examrace

विश्व के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश (Major natural areas of the world) Part 3 for Competitive Exams

Glide to success with Doorsteptutor material for UGC : Get **detailed illustrated notes covering entire syllabus**: point-by-point for high retention.

उष्ण मानसून प्रदेश:-

स्थिति एवं विस्तार-

- इसका विस्तार 8° से 28° अक्षांश रेखाओं के बीच पाया जाता है।
- यह प्रदेश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यानमार, थाइलैंड, हिन्दचीन, दक्षिणी चीन, फिलीपिंस एवं आस्ट्रेलिया के उत्तरी किनारे (कारयेन्ट्रिया क्षेत्र) में फैला हुआ है।
- इसके अलावा पूर्वी अफ्रीका एवं मध्य अमेरिका के कुछ सीमित भागों में मेडागास्कर में भी इस प्राकृतिक प्रदेश का विस्तार है।

जलवायु विशेषताएँ-

- ग्रीष्म ऋतु में तापमान ऊँचा (35° c) तथा जाड़े में यह 10° c से भी कम हो जाता है। अतः तापान्तर अधिक रहता है।
- वर्षा अनिश्चित एवं अनियमित होती है। वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है एवं जाड़े में शुष्कता होती है। जाड़े के दिनों में वाणिज्य पवन चलते हैं। समुद्र तटीय भागों में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से भी वर्षा होती है।

प्राकृतिक वनस्पति-

- इस प्रदेश में पतझड़ वन मिलते हैं।
- इस प्रदेश में साल, सागवान, शीशम, महोगनी, आम, कटहल, ताड़, जामुन बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों की लकड़ियाँ आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं।

आर्थिक विकास-

- इस प्रदेश की जलवायु धान, जूट, चावल एवं गन्ने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इसके अलावा गेहूँ, कपास, तंबाकू, तिलहन, दलहन आदि भी उपजाए जाते हैं।
- इस प्रदेश में गाय, बैल, भैंस आदि पशुओं की संख्या भी काफी अधिक है।
- यहां उद्योग धंधों, परिवहन, वाणिज्य एवं व्यापार का तीव्र गति से विकास हो रहा है। अतः इस प्रदेश को विकास का प्रदेश भी कहा जाता है।
- यह scattered (बिखरा) region (क्षेत्र) है, लगातार प्रदेश नहीं है।
- इस प्रदेश को आलस्यता का प्रदेश भी कहा जाता है, कारण वर्ष के 8-9 महीने तक तापमान अधिक तथा आर्द्रता भी अधिक होती है एवं शीघ्र की थकावट की स्थिति उत्पन्न करते हैं।

- यह विश्व में सर्वाधिक सघन बसा हुआ क्षेत्र है।
- यह प्रदेश बाढ़ के मैदान के लिए प्रसिद्ध है
- मलेशिया तथा वियतनाम में सालोभर वर्षा होती है, पर गर्मी के उत्तरार्ध में 70 प्रतिशत से अधिक वर्षा होती है।
अतः हर्बटसन का परिभाषा के अनुसार यह मानसूनी प्रदेश।

Developed by: **Mindsprite Solutions**